

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 135] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 3, 1978/आषाढ़ 12, 1900
No. 135] NEW DELHI, MONDAY, JULY 3, 1978/ASADHA 12, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 47-आईटीसी (पीएन)/78

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1978

विषय :—भारत-अफगानिस्तान व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत 1 अगस्त, 1977 से
31 जुलाई, 1978 तक अफगानिस्तान को सूखे फलों, हींग, नीरा बीजों का
आयात और भारत से माल का प्रेषित नियति ।

मि. सं. 3/4/77-78/जी० 1-3.—सार्वजनिक सूचना सं 114-आईटीसी (पी एन)/77
दिनांक 8 दिसम्बर, 1977 की ओर ध्यान दिलाया जाता है । जिसमें अफगानिस्तान को
सूखे फलों, हींग, नीरा बीजों और औषधीय जड़ी-बूटियों से संबंधित आयात नीति दी
गई है ।

2. उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के पैरा 8 में नीचे लिखी सीमा तक संशोधन किया जाएगा :—

(1) साख-पत्र के साथ आवेदन-पत्र भरने और निर्यात प्रलेखों को पूरा करने की अंतिम तिथि को 31 मई से बढ़ा कर 8 जुलाई, 1978 कर दी गई है ;

(2) सी सी पी जारी करने की अंतिम तिथि को 30 जून, 1978 से बढ़ा कर 20 जुलाई, 1978 कर दिया गया है ।

3. प्रति निर्यात संतुलन की अंतिम तारीख अर्थात् 31-8-1978 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

4. यह भी निश्चय किया गया है कि इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार जारी किए गए सी सी पी उनके पूर्ण मूल्य के लिए सभी द्वारा बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने के अधीन होंगे । निर्धारित तिथि तक प्रति निर्यात संतुलन को पूरा करने में आंशिक रूप से और/या पूर्ण रूप से असफल रहने पर यह गारन्टी समाप्त हो जाएगी ।

का. वं. शेषाद्री, मुख्य निबंधक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

Public Notice No. 47-ITC(PN)/78

New Delhi, the 3rd July, 1978

Subject.—Import of dry fruits, asafoetida, cumin seeds etc. from Afghanistan and counter export of goods from India under Indo-Afghan trade arrangement from 1st August, 1977 to 31st July, 1978.

File No. 3/4/77-78/POL. 1—III.—Attention is invited to Public Notice No. 114-ITC(PN)/77 dated 8th December, 1977 containing policy for import of dry fruits, asafoetida, cumin seeds and medicinal herbs etc. from Afghanistan.

2. Para 6 of the aforesaid public notice shall stand amended to the extent mentioned below :—

(i) The last date for filing applications alongwith letter of credits and complete export documents is extended from 31st May, 1978 to 8th July, 1978 ;

(ii) The last date for issue of CCP's is extended from 30th June, 1978 to 20th July, 1978.

3. The last date for counter-balancing exports viz. 31-8-78 remains unchanged.

4. It has also been decided that CCPs issued in terms of this Public Notice will be subject to production of bank guarantee by all for the full value of the CCPs. These guarantees shall be invoked in case of partial and/or full failure to complete counter-balancing exports by the prescribed date.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports and Exports